



SEE MORE JESUS • WANTTOSEEMORE.COM

जी उठ्या प्रभु — स्ट्रॉन्स नंबर सागे एक बाइबल अध्ययन

कूस, सबूत, अर वापसी — मरण इस्या क्यूं होणा था, अर आगे के होगा

मौलिक बाइबिल सिद्धांत — यीशु मसीह का सुसमाचार

शुरूआती बात

यीशु को मरना क्यूं पड़ा? खाली कब्र नै के साबित करया? जब वो वापस आवै तो के होगा? यो अध्ययन इन तीन सवालां नै बाइबल के धोरे ले जावै है, और बाइबल नै ये सवाल बाइबल के खुद के शब्दां म्हं जवाब देण देवै है।

यो अध्ययन बतावै है कि लहू क्यूं बहाना पड्या। यो अध्ययन बतावै है कि वो किती नीचै आया, अर कूस नै उसकी क्या कीमत चुकाई। यो अध्ययन बतावै है कि पिता नै पूत नै परमेश्वर अर प्रभु कहया। यो अध्ययन बतावै है कि यहोवा नै दाऊद के प्रभु सैं के कही। यो अध्ययन बतावै है कि मसीह मरे हुआं मूं तै जी उठ्या, अर मसीह उन लोगां मूं जिन्दा है जिन्हां नै वो बचाया। यो अध्ययन बतावै है उसके फेर आण के बारे मूं, अर उस चुनाव के बारे मूं जो सदा खातर रहवै है।

तीन सवाल जिनका जवाब यो अध्ययन देवै सै:

1. यीशु की मौत लहू के जरिये ई क्यूं होणी चाहिए थी, ना कोए और आसान तरीके सूं?
2. दाऊद भजन संहिता 110:1 में अपने बेटे नै अपना प्रभु किस तरियां बुला सकता था?
3. पुनरुत्थान नै के साबित करया, अर जद यीशु फेर आवैगा तो के होगा?

ओपनिंग एंकर

1 तीमुथियुस 2:5 क्यूंके परमेश्वर एके सै, अर परमेश्वर अर माणसां के बीच म्ह भी एक ए बिचोल्ला सै, जो मसीह यीशु सै, जो मानव रूप धारण करके आया। (6) मसीह नै अपणे-आप ताहीं बलिदान कर दिया, ताके लोगां नै पाप अर मौत की शक्ति तै आजाद करै। मसीह की मौत के जरिये, परमेश्वर नै यो सबूत दिया के सही बखत पै सब लोग बच जावै।

एक परमेश्वर + एक बिचोलिया परमेश्वर अर मनुष्यां के बीच, वो मनुष्य मसीह यीशु।

(मेरे निजी विचार: एक मध्यस्थ (जो दो अलग होई गए पक्षां के बीच खड़ा होके उननै फेर तै मिलावै सै) नै दोनूं पक्षां तै पूरा-पूरा जुझ्या होणा चाहिए, नहीं तो वो मध्यस्थ का काम कोनी कर सकता। देखो 1 तीमुथियुस 2:5 के मुताबिक मध्यस्थ कौन सै: "मनुष्य मसीह यीशु।" यीशु मसीह नै मनुष्य होणा जरूरी सै, वरना वो उड़ै कोनी खड़ा हो सकता जित्त मनुष्य खड़े होवें सैं अर मनुष्य की मौत मर सकता। देखो 2 कुरिन्थियों 5:19 के मुताबिक उस मौत के अंदर के सच था: "परमेश्वर मसीह म्ह था।" यीशु मसीह नै परमेश्वर होणा जरूरी सै, वरना उसकी मौत बस एक और मनुष्य की मौत होती, जो किसे नै भी उद्धार (पाप अर पाप की सजा तै छुटकारा) कोनी दे सकती। येही कारण सै के "यीशु कौन सै" यो सवाल सिर्फ विद्वानां खातर एक साइड का सवाल कोनी सै। उद्धार का पूरा सिद्धांत इस सवाल के जवाब पै टिक्या सै।)

H. मौत क्यूँ ईसी होणी थी — परमेसवर की ओड़ लोटण का पुल

H1. समस्या, साफ-साफ बताई गई

Isaiah 59:2

थारे अधर्मा नै थारे अर थारे परमेसवर के बिचाळे भेद कर दिया सै।

रोमियों 3:23 क्यूँके सारया नै पाप करया सै, अर सब परमेसवर की महिमा तै दूर होगे सै,

क्यूँके सारया नै पाप करया सै, अर सब परमेसवर की महिमा तै दूर होगे सै।

H2. लहू क्यूँ, अर कोई आसान चीज़ क्यूँ नहीं

इब्रानियों 9:22 सच तो यो सै के नियम-कायदे के मुताबिक आमतौर पै सारी चीज लहू के जरिये शुद्ध करी जावै सै, मसीह नै जो लहू बहाया उसके बगैर पापां की माफी कोन्या। [G859 aphesis ■]

मसीह नै जो लहू बहाया उसके बगैर पापां की माफी कोन्या।

Leviticus 17:11

शरीर का जीवन लहू म्ह सै --> यो लहू ए सै जो प्राण के खान्तर प्रायश्चित करै सै।

इब्रानियों 10:4 क्यूँके या अनहोणी बात सै, के बळ्धां अर बकरयां का लहू माणसां के पापां नै माफ करै।

क्यूँके या अनहोणी बात सै, के बळ्धां अर बकरयां का लहू माणसां के पापां नै माफ करै।

(मेरे निजी विचार: इन तीनु आयत ल्याकै एक साथ धर द्यो तो सारी पुराणी बलिदान की व्यवस्था अपने-आप ए समझ म्ह आ ज्या सै। ज़िंदगी लहू म्ह सै। पाप की कीमत एक जान सै। पुराणे बखत म्ह, पशु बलिदान प्रायश्चित (पाप का एक अस्थाई ढक्कण जो परमेश्वर के स्वामी माणस की हैसियत नै बहाल कर द्या करता था) कई-कई सौ साल ताहीं, दिन-प्रतिदिन देंदे रहे। इब्रानियों साफ-साफ कहवै सै के पशु बलिदान पाप नै कदे भी दूर कोनी कर सकते थे। फेर वे सारे पशु बलिदान किस काम के थे? पशु बलिदानां नै पाप का कर्जा दिखणा भर बिन-चुकाया राख्या। पशु बलिदान एक लम्बा, बार-बार होण आळा, रोज का याद दुआणा था के एक जान का कर्जा चढ़ाया सै। पशु बलिदानां नै वा याद तब ताहीं थमाए राखी जद ताहीं वा एक मौत ना आई जो पाप का कर्जा पूरा-पूरा चुका सकै थी।)

H3. वो कितणा नीचे आया

फिलिप्पियों 2:5 जिसा मसीह यीशु का सुभाव था उसाए तेरा भी सुभाव हो। (6) यीशु, परमेसवर के समान होकै भी होकै भी परमेसवर के बराबर होण नै अपने बस म्ह राखण की चीज ना समझा। (7) बल्के अपना सारा सुर्गीय हक छोड़ दिया, अर दास का रूप धारण करते होए माणस की समानता म्ह होग्या। (8) अर माणस के रूप म्ह जाहिर होकै अपने-आपनै दीन करया, अर परमेसवर का आज्ञाकारी रहया अर याडै तक के अपराधियाँ की तरियां मौत, हाँ क्रूस की मौत भी सह ली।

परमेश्वर के रूप म्ह होकै --> दास का रूप धारण करया --> मृत्यु तक, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहया।

(मेरे निजी विचार: फिलिप्पियों 2:6-8 म्ह उतरने के क्रम पै ध्यान दे। यीशु परमेश्वर के रूप म्ह था। यीशु की महिमा खाली करी गई। यीशु नै सेवक का रूप धारण करया। यीशु नै माणसां की समानता धारण करी। यीशु नम्र होग्या। यीशु आज्ञाकारी होग्या। यीशु मरग्या। पौलुस नै फेर दो और शब्द जोड़े जिनकी वाक्य ताहीं सख्ती नै जरूरत कोनी थी: "यहां तक के क्रूस की मौत।" सिर्फ याहे कहणा के यीशु मरग्या, पौलुस के खान्तर काफी न्ही था। यीशु की मौत का खास तरीका पौलुस की बात का एक हिस्सा सै।)

H4. उसनै सही म्ह के कीमत चुकाई — पहलम कहा गया, अर पाछे फेर कहा गया

Isaiah 50:6

मैं अपनी पीठ मारण वालां के दे दी --> मैंने अपना मूँ शरम अर थूकण से नहीं छिपाया।

Psalms 22:16

उननै मेरे हाथ अर मेरे पैर बींध दिये --> वे मेरे लते आपस म्ह बांट लेवें सै, अर मेरे कपड़े पै चिट्ठी गरें सै।

मत्ती 27:35 फेर उननै उस ताहीं क्रूस पै चढ़ाया, अर पर्ची गेर के उसके लते बांड लिये,

उन्हों नै उसनै क्रूस पर चढ़ा दिया, अर उसके कपड़ां नै चिट्ठी डाल के बांट लिया --> ताकि ये पूरा हो सकै।

यूहन्ना 19:34 पर सिपाहियाँ म्ह तै एक नै बरछी तै उसका पंजर चीर दिया, अर उस म्ह तै जिब्बे लहू अर पाणी लिकड़या।

एक भाले नै उसकी बगल बंध दी --> अर फेर झट उसतै लहू अर पाणी लिकळ्या।

(मेरे निजी विचार: दाऊद नै भजन 22 म्ह छेदे होए हाथां अर पैरां के बारै म्ह लिख्या। दाऊद नै भजन 22 म्ह सिपाहियां के कपड़े बांटण के बारै म्ह लिख्या। दाऊद नै यो इस्राईल म्ह कोए भी सूली चढ़ाण देखण तै हजार साल पहल्या लिख्या था। दाऊद अपने आप पै होई किसी बात का बखान न्ही कर रहया था। मत्ती नै सदियां बाद, यीशु की सूली चढ़ाण होण के बाद लिख्या। मत्ती लिखै सै के सिपाहियां नै ठीक वोए करया जो भजन 22 म्ह बताया गया था। मत्ती बतावै सै के सिपाहियां नै यो क्यूँ करया: "ताके यो पूरा हो जावै।" दोनू वृत्तांत नै साथ म्ह पढ़ो। दाऊद नै अपना वृत्तांत भविष्य की ओड़ देखते होए लिख्या, उस ताहीं कोए मालूम कोनी था के सूली चढ़ाण होगी। मत्ती नै अपना वृत्तांत सूली चढ़ाण नै पाछे मुड़के देखते होए लिख्या, उस ताहीं यो इन्कार करण का कोए राह कोनी था के सूली चढ़ाण होई थी।)

एच5. वा मौत काहू खात्तर थी — एक पुल, कोए दुखान्त कोनी

रोमियों 5:8 पर परमेसवर म्हारे पै अपने प्यार की भलाई इस तरियां तै साबित करै सै, के जब हम पापी ए थे, जिबे मसीह यीशु म्हारे खात्तर मरया। **[G2644 katallasso ■]** (9) जब के इब यीशु के लहू बहाण के कारण परमेसवर नै म्हारे ताहीं अपनी नजर म्ह धर्मी बनाया सै, तो उसके जरिये परमेसवर के छो तै क्यातै नही बचांगें? (10) क्यूँके जब हम परमेसवर के बैरी थे, तो उसके बेटे की मौत के जरिये म्हारा मेळ-मिलाप परमेसवर के गेल्या होया, अर सब तै आच्छी बात या सै, के मेळ-मिलाप हो जाण के कारण उसके बेटे यीशु मसीह के जरिये दिए गये जीवन के कारण म्हारा उद्धार पक्का सै।

जिब हम पापी ए थे, तब मसीह म्हारे खात्तर मरया --> उसके बेटे की मौत के जरिये म्हारा परमेसवर के गैल मेळ हो गया।

2 कुरिनियों 5:18 ये सारी बात परमेसवर की ओड़ तै सै, जिसनै मसीह के जरिये अपने गेल्या म्हारा मेळ-मिलाप कर लिया सै, अर मेळ-मिलाप की सेवकाई का काम म्हारे ताहीं सौंप दिया सै। **[G2643 katallage ■]** (19) यानिके परमेसवर नै मसीह म्ह होके अपने गेल्या दुनिया का मेळ-मिलाप कर लिया, अर माणसां के पापां का दोष उनपै नही लाया, अर याए बात मेळ-मिलाप का सन्देश सै, जो परमेसवर नै म्हारे ताहीं सौंप दिया सै। (20) ज्यातै, हम मसीह के राजदूत सां। परमेसवर म्हारे जरिये माणसां तै बिनती करण लाग रहया सै। हम मसीह की ओड़ तै थारे तै बिनती करा सां, के परमेसवर के गेल्या मेळ-मिलाप कर ल्यो। (21) मसीह जो पाप तै अनजाण था, उससे ताहीं परमेसवर नै म्हारे खात्तर पापी ठहराया, ताके हम परमेसवर की नजर म्ह धर्मी बण जावां, क्यूँके यीशु मसीह नै म्हारे पापां का दण्ड अपने उपर ले लिया।

परमेश्वर मसीह म्ह होके संसार नै अपने गैल मेल करावे था --> उसने उस ताहीं म्हारे खात्तर पाप बणा दिया, जो पाप नै जाणे भी नही था।

H6. खम्भे पर लटकाया साँप — एक पुराणी तस्वीर जो उसनै अपने आप पै लागू करी

Numbers 21:8

जो कोए भी डस्या जावै, जिब वो उसकी ओड़ देखेगा, तो जिवेगा।

भिन्न नजरिया, एके दृश्य — रेगिस्तान म्हां खड़ा खम्भा, अर पहाड़ी पै क्रूस

यूहन्ना 3:14 अर जिस ढाळ तै मूसा नबी नै जंगल-बियाबान म्ह कांस्सी का साँप बणाके उस ताहीं ऊँचे पै चढ़ाया, उससे ढाळ तै जरूरी सै के मै माणस का बेटा भी ऊँचे पै चढ़ाया जाऊँ। (15) ताके जो कोए मेरे पै बिश्वास करै वो अनन्त जीवन पावै। (16) क्यूँके परमेसवर नै दुनिया के माणसां तै इसा प्यार राख्या के उसनै अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताके जो कोए उसपै बिश्वास करै, वो नाश कोनी होवै, पर अनन्त जीवन पावै। (17) क्यूँके परमेसवर नै अपना बेटा दुनिया म्ह इस खात्तर नही भेज्या, के दुनिया पै दण्ड का हुकम देवै, पर इस खात्तर भेज्या के दुनिया उसके जरिये उद्धार पावै।

जिस तरह मूसा नै जंगल म्ह साँप नै ऊँचा करया, उससे तरह मनुष्य के बेटे नै भी ऊँचा करया जाणा जरूरी है --> जो कोई भी उसपै विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा।

(मेरे निजी विचार: गिनती 21 अर यूहन्ना 3 के बीच का यो नाता इस अध्ययन का बणाया होया कोनी। यीशु नै खुद अपनी पिछाण के बारे म्ह यो नाता सीध्वा अर जोर तै बताया। रेगिस्तान म्ह मरणआळे माणसां नै अपने-आपनै ठीक करण नै कोनी कहा गया। रेगिस्तान म्ह मरणआळे माणसां नै हिम्मत राखण नै कोनी कहा गया। रेगिस्तान म्ह मरणआळे माणसां नै इलाज कमाण नै कोनी कहा गया। रेगिस्तान म्ह मरणआळे माणसां नै कहा गया के जो परमेश्वर नै खम्भे पै ऊँचा करया सै, उस पै देखो। रेगिस्तान म्ह मरणआळे जिन माणसां नै देखे, वे जिन्दा रहग्ये। अब दोनू द्रश्यां नै साथ राखो अर अजीब बात पै ध्यान दो। खम्भे पै ऊँचा करया होया काँसे का साँप उसी चीज की शकल का था जो उन माणसां नै मार रही थी जो उसनै देखे थे। पौलुस क्रूस के बारे म्ह भी इसी तरियां की अजीब सच्चाई बतावै सै। पौलुस कहवै सै के यीशु नै म्हारे खात्तर पाप बणाया गया, हालाँके यीशु नै कदे पाप जाण्या ए कोनी (2 कुरिनियों 5:21)। इलाज नै भी उससे शकल म्ह ऊँचा करया गया जिस शकल म्ह श्राप था।)

आई. पिता खुद बेटे नै "परमेसवर" अर "प्रभु" कहै सै

I1. इब्रानियों 1:1 पैहल्डे युग म्ह परमेसवर नै म्हारे पूर्वजां तै भोत बार अर अलग-अलग ढाळ तै नबियाँ के जरिये बात करी। (2) पर इन आखरी के दिनां म्ह म्हारे तै, अपने बेटे के जरिये बात करी। परमेसवर नै सारी सृष्टि की रचना अपने बेटे के जरिये करी अर उसनै उस ताहीं सारी चिज्जां का वारिस बणाया। (3) बेटा ए परमेसवर की महिमा का चाँदणा सै अर उस म्ह हम देखे सां, के वो किसा सै, अर सारी चिज्जां नै अपने शक्तिशाली हुकम तै सम्हाळे सै। वो माणसां के पापां की माफी का कारण बण्या, अर ऊँची जगहां पै महिमामय के सोळी ओड़ जा बेठ्या,

उसनै अपने बेटे के जरिए हमसे बात करी + उसी के जरिए उसनै दुनिया बणाई --> वो उसकी महिमा का उजाळा, और उसकी हस्ती की सही छाप है।

I2. इब्रानियों 1:5 क्यूँके परमेसवर नै कदे किसे सुर्गदूत तै नही कहा, के “तू मेरा बेटा सै, आज मै घोषणा करूँ सूँ के, तू मेरा बेटा सै” अर सुर्गदूतां म्ह तै उसनै कद किसे तै कहा, के “मै उसका पिता होऊँगा, अर वो मेरा बेटा होवैगा?” **[G4416 prototokos ■]** (6) अर जब परमेसवर नै अपने जेठे बेटे ताहीं इस दुनिया म्ह भेज्या, तो कहवै सै, “परमेसवर के सारे सुर्गदूत उस ताहीं मोधे मुँह पड़के प्रणाम करै।”

क्यूँके परमेसवर नै कदे किसे सुर्गदूत तै नही कहा, के “तू मेरा बेटा सै? --> परमेसवर के सारे सुर्गदूत उस ताहीं मोधे मुँह पड़के प्रणाम करै.

(मेरे निजी विचार: इब्रानियों की किताब का पूरा पहला अध्याय एक लम्बी दलील देवें से। या दलील से के पुत्र कोए स्वर्गदूत कोन्या अर कदे स्वर्गदूत रह्या भी कोन्या। यो बिन्दु उस अध्ययन म्हां ध्यान देण जोगा सै, जिसनै अभी-अभी "यहोवा के दूत" नामक हस्ती पै घणे पत्रें लगाए सै। इब्रानी शब्द मलाक एक काम-कमीशन नै दशविं सै। परमेश्वर का अपना पुत्र पुराने नियम म्हां कई बार यो काम करण जान्दा रह्या। पर इब्रानियों की किताब का लेखक किसे नै भी पुत्र नै सृजे होए स्वर्गदूतां म्हां गिणण न्ही देवैगा। स्वर्गदूतां नै तो पुत्र की आराधना करण का हुकम दिया गया सै।)

I3. इब्रानियों 1:8 पर बेटे के बारे म्हा कहवै सै, “हे परमेश्वर, उसका राज युगायुग रहवैगा, तेरे राज्य का राजदण्ड न्याय का राजदण्ड सै। (9) तन्नै धर्म तै प्यार अर अधर्म तै बैर राख्या, इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर नै, तेरे साथियाँ तै बढ़कै हर्षरूपी तेल तै तेरा अभिषेक करया।” (10) अर यो के, “हे प्रभु, शुरुआत म्हा तन्नै धरती अर जो कुछ अकास म्हा सै उन ताहीं बणाया, अर सुर्ग तेरे हाथ्यां की कारीगरी सै। (11) वे तो नाश हो जावैगे, पर तू सदा खात्तर जिन्दा रहवैगा, अर वे सारे लत्ते की ढाळ पुराणे हो जावैगे, (12) अर तू उन ताहीं चादर की तरियां लपेटैगा, अर वे लत्ते की ढाळ बदल जावैगे पर तू कदे न्ही बदलैगा, अर तू सदा खात्तर जिन्दा रहवैगा।”

बेटे नै वो कहवै है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन हमेशा-हमेशा खात्तर है --> तूने, हे प्रभु, शुरू म्हा धरती की नींव धरी।

(मेरे निजी विचार: इब्रानियों 1:8 के पहले पांच शब्द फिर पढ़ो: “पर पुत्र के बारे म्हां वो कहता है।” यो वाक्य इब्रानियों की किताब लिखणिये का यीशु के बारे म्हा अपना विचार न्हीं है। यो वाक्य परमेश्वर पिता का पुत्र से सीधा बोलणा दर्ज करै है। परमेश्वर पिता पुत्र नै “हे परमेश्वर” कहकै बुलावै है। फेर परमेश्वर पिता पुत्र नै “प्रभु” कहकै बुलावै है। फेर परमेश्वर पिता पुत्र नै धरती और आकाशां का बणाणिये का श्रेय देवै है। जो कोई यो दलील देणा चाहवै के पवित्र शास्त्र म्हां पुत्र नै कभी परमेश्वर न्हीं कहा गया, तो उसनै इस पद का सामना करणा पड़ेगा, जित्थै पिता पुत्र नै परमेश्वर कहवै है।)

अलग नजरिया, एक ही दृश्य — एक राजा खात्तर लिख्या गीत, अर पिता का अपने बेटे नै वोए सुणाणा

Psalms 45:6

हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग सै --> परमेश्वर, तेरे परमेश्वर नै तन्नै तेरे साथियाँ तै बढ़कै आनन्द के तेल तै अभिषेक करया सै।

Psalms 102:25

पहल्यां तैं तन्नै धरती की नींव धरी सै --> तू वोए-का-वोए सै, अर तेरे साल कदे खतम कोनी होंगे।

(मेरे निजी विचार: याहे एक इसी जगहां सै जित दो हिस्सां नै साथ-साथ पढ़न तै सही मायने म्हा काम बणै सै। भजन संहिता 45 एक ब्याह का गीत सै। भजन संहिता 102 एक मुसीबत म्हा पड़े माणस की प्रार्थना सै। भजन संहिता 102 म्हा, वे शब्द यहोवा नै, इस्राएल के परमेश्वर नै, जिसनै दुनिया बणाई, कहो गए सै। दोनु भजन बैतलहम म्हा यीशु के जन्म तै सैकड़ों साल पहल्या लिखे गए थे। इब्रानियों 1 दोनु भजनां का हवाला देवै सै। इब्रानियों 1 दोनु भजनां नै परमेश्वर पिता के शब्दां के रूप म्हा पेश करै सै। इब्रानियों 1 दोनु भजनां नै बेटे पै लागू करै सै। असली भजनां अर इब्रानियों 1 म्हा दिए गए हवालां के बीच शब्दां के छोटे-छोटे फर्क ध्यान तै देकखो। बाइबल इन छोटे फर्कां नै न्ही छिपावै, अर या पढ़ाई भी इन नै न्ही छिपावै। जो चीज भजनां अर इब्रानियों 1 के बीच न्ही बदलती, वा सै वा माणस की पहचान जिसके बारे म्हा ये शब्द कहो गए सै।)

J. प्रभु नै मेरे प्रभु नै कहा — वो आयत जिसनै बहस खतम कर दी

J1. Psalms 110:1

प्रभु नै मेरे प्रभु तै कहा, तू मेरे सोफे हाथ बैठ जा --> जब ताहीं मै तेरे बैरियां नै तेरे पायां की चौकी ना बणा हूं।

(मेरे निजी विचार: भजन संहिता 110:1 की या एक पंक्ति पहली बार पढ़ण पै जितना दिखै, उसतै घणा मतलब राखै सै। अंग्रेजी म्हा, दोनू शब्द “Lord” के रूप म्हा छपे सैं। फर्क का एकमात्र संकेत बड़े अक्षर सैं। पहला शब्द बड़े अक्षरां म्हा छपा सै, LORD। दूसरा शब्द बड़े अक्षरां म्हा न्ही छपा। अंग्रेजी के तळै, ये दो अलग-अलग हिब्रू शब्द सैं। पहला हिब्रू शब्द परमेश्वर का वाचा वाळा नाम सै, यहोवा (H3068)। KJV म्हा बड़े अक्षर सदा या दिखावै सैं के तळै का हिब्रू शब्द यहोवा सै। दूसरा हिब्रू शब्द अदोन (H113) सै, जो एक स्वामी या शासक के खात्तर शब्द सै। उरै काम म्हा ल्ही गई अदोन की रूप “मेरे प्रभु” पढ़ी जावै सै। दाऊद, जो या भजन लिखै सै, दर्ज करै सै के परमेश्वर उस कतै बात करण लागरया सै जिसनै दाऊद अपना खुद का स्वामी कहवै सै। इब सीधा-साधा सवाल सोचो। दाऊद इस्राएल का राजा था। उसका स्वामी कौण था? जवाब और भी अजीब हो जावै सै जब याद राखो के परमेश्वर नै वचन दिया था के मसीह दाऊद के खुद के परिवार म्हा तै, पीढ़ियां बाद, आवैगा। एक आदमी आमतौर पै अपने खुद के पड़पोतर नै “मेरे प्रभु” न्ही कहवै।)

जे2. उसनै खुद उनतै उस बारे म्हा पूछ्या, अर कोए भी जवाब न्ही दे सक्या

मत्ती 22:41 जब फरीसी कठे थे, तो यीशु नै उनतै बुझ्या, (42) “मसीह के बारे म्हा थम के सोचो सो? वो किसका बेटा सै?” उननै यीशु तै कहा, “दाऊद का।” (43) यीशु नै उनतै बुझ्या, “तो दाऊद आत्मा म्हा होके उसनै प्रभु क्यातै कहवै सै?” (44) “प्रभु नै, मेरे प्रभु तै कहा, मेरे सोळे कान्ही बैठ, जब ताहीं के मै तेरे बैरियाँ ताहीं तेरे पायां म्हा ना झुका दियुँ।” (45) “भला, जब दाऊद उसनै प्रभु कहवै सै, तो वो उसका बेटा किस ढाळ होया?” (46) उसके जवाब म्हा कोए भी एक बात न्ही कह सक्या। पर उस दिन तै दुबारे उसतै कीमे और बुझण की हिम्मत कोनी करी।

जब दाऊद उसनै प्रभु कहवै सै, तो वो उसका बेटा किस ढाळ होया? --> उसके जवाब म्हा कोए भी एक बात न्ही कह सक्या।

(मेरे निजी विचार: यीशु नै मत्ती 22:41-46 म्हा फरीसियाँ ताहीं अपने सवाल का जवाब कोनी बताया। यीशु नै सवाल पूछ्या अर सवाल ताहीं जवाब दिए बिना छोड़ दिया। यो सवाल अजें भी बिना जवाब का सै, अर इस सवाल का अजें भी बस एक ए जवाब सै जो सही बैठै सै। मसीह देह के अनुसार दाऊद का बेटा सै। मसीह उस बात के अनुसार दाऊद का प्रभु सै जो वो दाऊद के जन्म तै पहले था।)

जे3. पतरस नै उससे आयत नै उस दिन काम म्हा लिया जिस दिन कलीसिया शुरू होई

प्रेरितों के काम 2:32 इससे यीशु तारीं परमेश्वर नै जिन्दा करया, जिसके हम सारे गवाह सां। (33) इस तरियां परमेश्वर के सोळे हाथ पै सबतै ऊँच्चा पद पाकै, अर पिता तै वो पवित्र आत्मा पाकै जिसका वादा लिया गया था, उसनै यो उण्डेल दिया सै जो थम देखो अर सुणो सो। (34) क्यूँके दाऊद तो सुर्रा पै कोनी चढ्या, पर वो खुद कहवै सै, 'प्रभु परमेश्वर नै मेरे प्रभु तै कहा, मेरे सोळी ओडु नै बैठ, (35) "जिब तारीं के मै तेरे बैरियां नै तेरे कदमां तळे ना झुका दियुं।" (36) "आखर इस्राएल का सारा खानदान पक्की तरियां तै जाण लेवै के परमेश्वर नै उससे यीशु तारीं जिस तारीं थमनै क्रूस पै चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया अर मसीह भी।"

दाऊद स्वर्ग म्ह नही चढ्या --> परमेश्वर नै उससे यीशु तारीं, जिसनै थमनै क्रूस पै चढ़ाया, प्रभु अर मसीह दोनू बणा दिया।

(मेरे निजी विचार: प्रेरितों के काम 2:29-36 म्ह पतरस का तर्क छोटा सै। पतरस के तर्क नै कोए चतुराई की जरूरत कोनी। दाऊद नै किसे के परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठण के बारे म्ह लिखा था। दाऊद खुद कदे परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठण नै ऊपर कोनी गया। कोए बी जाके दाऊद की कब्र देख सकै सै, पतरस पैहल्या कुछ आयतां म्ह न्युं कहवै सै। इस करके भजन दाऊद के बारे म्ह कोनी था। फेर पतरस उस माणस का नाम बतावै सै जिसके बारे म्ह भजन था। पतरस इस माणस का नाम बिना किसे नरमी के लेवै सै: "वोए ईसू, जिसनै थमनै क्रूस पै चढ़ाया।" पतरस इस माणस नै "प्रभु अर मसीह दोनू" कहवै सै।)

J4. उससे भजन म्ह एक और बात कही गई सै — अर इब्रानियों उस पर एक पूरी दलील बणावै सै

Psalms 110:4

प्रभु नै साँ खाई सै, अर वो पिच्छे नही हटेगा --> तू मलिकिसिदक की रीत पै सदा खात्तर याजक सै।

इब्रानियों 5:5 उससे तरियां ए मसीह नै भी खुद तारीं महायाजक बणाके खुद का सम्मान करण का फैसला कोनी करया, परमेश्वर नै उस तारीं यो सम्मान दिया जिब उसनै कहा, के "तू मेरा बेटा सै, आज मन्त्रे ए तेरे तारीं पैदा करया सै।" (6) एक और जगहां परमेश्वर उस तारीं दुबारा कहवै सै, "तू मलिकिसिदक की रीत पै सारी हाण खात्तर याजक सै।"

उससे तरियां ए मसीह नै भी खुद तारीं महायाजक बणाके खुद का सम्मान करण का फैसला कोनी करया --> एक और जगहां परमेश्वर उस तारीं दुबारा कहवै सै, "तू मलिकिसिदक की रीत पै सारी हाण खात्तर याजक सै."

इब्रानियों 7:3

ना दिनां का शुरू, ना जिन्दगी का अन्त --> वो सदा एक याजक बणया रहवै है।

इब्रानियों 7:24 यीशु युगानुयुग जिन्दा रहवै सै, इस कारण उसके याजक का पद कोए नही ले सकता। (25) इससे खात्तर जो यीशु के जरिये परमेश्वर के धोरे आवै सै, वो उनका पूरा-पूरा उद्धार कर सकै सै, क्यूँके वो उनके खात्तर बिनती करण तारीं सारी हाण जिन्दा सै।

वो सदा बणया रहवै सै अर उसकी याजकता कदे ना बदलै सै --> वो उननै पूरे तरियां तै बचाण म्ह समर्थ सै।

(मेरे निजी विचार: एक छोटा सा भजन बहुत सारी बात समेटे रखै। भजन 110 उस जन का नाम लेवै जिसे दाऊद अपना प्रभु कहवै, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। भजन 110 एक राजा का नाम लेवै जो सिय्योन म्ह से राज करै। भजन 110 एक सदा के याजक का नाम लेवै, इस्राएल के याजकपद ते भी पुराणे दर्जे का, जिसकी शपथ परमेश्वर ने खुद खाई अर परमेश्वर वा शपथ वापस नहीं लेगा। पुराणे इस्राएल म्ह, कानून राजा के पद अर याजक के पद नै अलग-अलग रखता था। उस कानून के तहत एक ही आदमी दोनू पद नहीं धार सकता था। भजन 110 दोनू पद एक ही जन नै दे देवै। इब्रानियों की किताब कई अध्यायां म्ह यो बताण म्ह लागी रहवै के वो जन कौन है।)

K. कब्र तै जिवाया गया — अर थारे म्ह जीवै सै

K1. खुद तथ्य, अर वो किस तरियां तै दियो गयो

1 कुरिन्थियों 15:3 इससे कारण मन्त्रे थारे तारीं सब तै खास सन्देश बताया सै, जो मेरे तारीं प्रभु यीशु तै मिल्या सै, वो सन्देश यो सै, के पवित्र ग्रन्थ के वचन के मुताबिक यीशु मसीह म्हारै पापां के खात्तर मारया गया, (4) गाड्या गया, अर पवित्र ग्रन्थ के मुताबिक तीसरे दिन जिन्दा भी होगया,

मसीह पवित्र शास्त्रां के मुताबिक म्हारै पापां खात्तर मरग्या + उस तारीं दफनाया गया + अर वो तीसरे दिन फेर जी उठ्या।

1 कुरिन्थियों 15:20 पर सच म्ह-ए परमेश्वर नै मसीह तारीं मुर्दा म्ह तै जिन्दा करया सै, अर वो पैहला माणस सै, जो मरे होया म्ह तै जिन्दा करया गया।

मसीह मरे हुआण म्ह से जी उठ्या, और मरे हुआण का पहला फल बणग्या।

K2. पुनरुत्थान नै उसके बारे में के साबित करया

रोमियों 1:3 यो सुसमाचार परमेश्वर के बेटे के बारे म्ह सै, जो म्हारा प्रभु यीशु मसीह सै। वो शारीरिक तौर पै तो राजा दाऊद की पीढ़ी तै पैदा होया, (4) पर पवित्र आत्मा की शक्ति तै मरे होया म्ह तै जिन्दा होण के कारण परमेश्वर का बेटा कुहाया।

देह के हिसाब तै दाऊद के वंश म्ह जन्म्या --> पर मुर्दा म्ह तै जी उठण के जरिये सामर्थ के गैल परमेश्वर का बेटा ठहराया गया।

(मेरे निजी विचार: पौल फेर सैं Rome वाल्यां 1:3-4 म्ह जवाब के दोनों हिस्सां नै एक ही वाक्य म्ह, तरतीब सैं, धर देवै सै। यीशु दाऊद के खानदान म्ह सैं आया, शरीर के मुताबिक। यीशु नै कब्र सैं बाहर आ के सामर्थ के साथ परमेश्वर का बेटा साबित कर दिया गया। कोई भी माणस अपने आपनै परमेश्वर का बेटा कहवा सकै सै। पर सिर्फ यीशु ही एक सैं जिसका यह दावा मरे म्हां जी उठ के साबित होया सै।)

K3. पुराणे नियम मं यो पैहल्यां कहा गया

Psalm 16:10

तू मेरे प्राण नै अधोलोक म्ह ना छोड़ैगा --> अर ना अपने पवित्र जन नै सड़ण-गलण देखखण देवैगा।

प्रेरितों के काम 2:29 “हे भाईयो, मै कुलपति राजा दाऊद के बारे में थारे तै हिम्मत करके कहूँ सूँ के वो तो मरग्या अर गाड़्या भी गया अर उसकी कब्र आज ताहीं म्हारे उरै न्यू-की-न्यू सै। (30) वो नबी था अर उसने बेरा था के परमेश्वर नै मेरे तै वादा करया सै के मै तेरी पीढ़ी में तै एक माणस नै तेरे सिंहासन पे बिठाऊँगा, (31) उसने होण आळी बात ताहीं पैहल्याए तै देखके मसीह के जिन्दा उठण के बारे में भविष्यवाणी करी के ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़्या गया अर ना उसकी देह सड़ण पाई।

दाऊद मरग्या अर गाड़्या भी गया --> उसने यो पैहले देखके मसीह के जी उठण की बात कही।

K4. अर इब्ब — वो उन लोगां में जीवै सै जिन्हें उसने बचाया

रोमियों 8:11 जै परमेश्वर का आत्मा जिसने मसीह यीशु ताहीं मरे होया में तै जिन्दा करया, थारे में बसा होया सै, तो जिसने मसीह ताहीं मरे होया में तै जिन्दा करया, वो थारी नाश होण आळी देह नै भी अपने पवित्र आत्मा के जरिये जिन्दा करेगा, जो थारे में बसा होया सै।

जिसने यीशु नै मरया होया में तै जिवाड़्या, उसकी आत्मा थारे में बसे सै --> वो थारे मरणहार शरीर नै भी जिवाड़ेगा।

1 गलातियों 2:20 यो इसा सै, के मात्रो जिसा मै मसीह के गैल क्रूस पे मारया गया, अर इब मै जिन्दा न्ही रह्या, पर मसीह मेरे में जीवै सै, अर इब जो मै जीण लागरया सूँ, तो सिर्फ परमेश्वर के बेटे पे बिश्वास करण के जरिये जिसने मेरे तै इतणा प्यार करया के मेरे खातर अपनी जान दे दी।

मै मसीह के गेल्या क्रूस पे चढ़या --> मै न्ही, पर मसीह मेरे में जीवै सै।

कुलुस्सियों 1:27 परमेश्वर चाहवै सै के मसीह के धन अर महिमा नै गैर यहूदियाँ के माणस जाणै सै, अर वो राज यो सै के मसीह थारे में रहवै सै, यो थमने परमेश्वर की महिमा नै साँझा करण की आस देवै सै। **[G3466 musterion ■]**

यो भेद = मसीह थारे में, महिमा की आस।

यूहन्ना 14:23 यीशु नै उस ताहीं जवाब दिया, “जै कोए मेरे तै प्यार करै सै, तो वो मेरी शिक्षा का पालन करेगा, वो मेरे पिता का प्रियजन बनेगा, अर हम उसके धोरे आके उसके गेल्या वास करावेंगे।”

जै कोए मेरे तै प्यार करै सै, तो वो मेरी शिक्षा का पालन करेगा --> अर हम उसके धोरे आके उसके गेल्या वास करावेंगे।

(मेरे निजी विचार: इस अध्ययन की सारी लीक ओ तक चाली जित ये पूरी होवै। यीशु बाप के साथ था इसते पहले कोए चीज बणी। यीशु पुराने नियम में माणसां के सामने आया, अर वे माणस जिन्दा रहे। यीशु एक छोटे-से कस्बे में एक जनानी तै जन्मा। यीशु एक पहाड़ी पर, लकड़ी पर, शहर के बाहर मार दिया गया। यीशु कब्र सूँ बाहर आया। बाइबल अब कहवै कि यीशु माणसां के भीतर रहवै। यो नतीजा वोहै है जित यो अध्ययन सारी बखत जा रहा था। इस अध्ययन का मतलब कदे भी यो बहस जीतना न्हीं था कि यीशु कौण है। इस अध्ययन का मतलब यो है कि जो यो सब कुछ है, वो तेरे भीतर रहणा चाहवै। यूहन्ना 14:23 भी देख: “हम आवेंगे।” वो बहुवचन आवाज जिसने उत्पत्ति 1:26 में बाइबल खोली थी, वो अजे भी यहां हाजिर है।)

L. वो फेर आवैगा — अर वा चुणाव जो सदा खातर रहवैगा

L1. वो आवै सै, अर हरेक आँख उसने देखेगी

प्रेरितों के काम 1:9 न्यू कहके यीशु उनके देखदे-देखदे परमेश्वर के जरिये उप्पर ठा लिया गया, अर बादल नै उस ताहीं उनकी आँखां तै लहको लिया। (10) उसके जानदे बखत जब वे अकास की ओड़ देखखे थे, तो देखखे, चाणचक दो माणस धोळे लते पहेरे ओड़ उनके लोवै आण खड़े होए, (11) अर उनतै कहा, “हे गलील परदेस के माणसां, थम खड़े अकास कान्ही क्यांतै लखाओ सो? योए यीशु, जो परमेश्वर के जरिये थारे धोरे तै सुर्ग पे ठा लिया गया सै, जिस तरियां तै थमने उस ताहीं सुर्ग नै जानदे देख्या उससे तरियां तै वो दुबारा आवैगा।”

जो परमेश्वर के जरिये थारे धोरे तै सुर्ग पे ठा लिया गया सै, जिस तरियां तै थमने उस ताहीं सुर्ग नै जानदे देख्या उससे तरियां तै वो दुबारा आवैगा।

प्रकाशित वाक्य 1:7 लखाओ, वो बादलां के गेल्या आण आळा सै, अर हरेक आँख उसने देखेगी, बल्के जिनने उस ताहीं बेधा था, वे भी उस ताहीं देखेंगे, अर धरती के सारे कुल उसके कारण छात्ती पीटेंगे, जब उस ताहीं देखेंगे। हाँ। आमीन।

हरेक आँख उसने देखेगी, अर उनके भी जिन नै उसने बेध्या था।

L2. 2 थिस्सलुनीकियों 1:7 अर थमने वो इस दुख तै राहत देवैगा, जो थम इब उठाण लागरे सों, अर म्हारे ताहीं भी राहत दे, यो उस बखत होगा जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी सुर्गदूतां के गैल, धधकती होई आग में सुर्ग तै आवैगा। **[G1557 ekdikesis ■]** (8) अर जो परमेश्वर नै न्ही पिच्छाणदे, अर जो म्हारे प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार ताहीं न्ही मानते उनतै वो बदला लेवैगा। (9) वे परमेश्वर तै हमेशा खातर अलग हो जावेंगे अर उसकी महिमामय शक्ति में शामिल न्ही हो पावेंगे अर वे अनन्त विनाश का दण्ड पावेंगे। (10) यो उस दिन होवैगा, जब प्रभु यीशु मसीह बोहड़के आवैगा, ताके वो उन माणसां तै महिमा पावै जो उसके कहलावै सै, उन माणसां तै सम्मानित

करया जावेगा जो उसपै बिश्वास करै सै, अर उस दिन थम भी उनकी तारीफ करण आळा म्ह तै एक होओगे, क्यूँके थमनै उसपै बिश्वास करा, जो हमनै थारे ताहीं बताया।

धधकती आग म्ह उनपै बदला लेता जो परमेश्वर नै नाहीं जानते, और जो सुसमाचार की नाहीं मानते --> जिस बखत वो अपने पवित्र लोगों म्ह महिमावान होणे आवेगा।

(मेरे निजी विचार: 2 थिस्सलुनीकियों 1:8 नै धीरे तै पढ़ो। 2 थिस्सलुनीकियों 1:8 दो जत्थां का नाम लेवै सै, एक का न्ही। पहला जत्था परमेश्वर नै न्ही जाणदा। दूसरा जत्था सुसमाचार की आज्ञा न्ही मानदा। जाणणा अर मानणा दोनू एक ए आयत म्ह गिणाए गए सै। 2 थिस्सलुनीकियों 1:10 भी ध्यान तै देख्यो, जो इससे वाक्य का हिस्सा सै। यीशु का वोए आणा जो एक जत्थे के खातर आग सै, वोए दूसरे जत्थे के खातर महिमा सै। यो एक ए घटना सै। इस घटना म्ह माणस किस पाळी पै खड़ा सै, यो इब ए तय हो ज्या सै, बाद म्ह न्ही।)

L3. प्रकाशित वाक्य 19:11 फेर मत्रै सुर्ग ताहीं खुल्या होइ देखा, अर के देखूँ सूँ, के एक धोळा घोड़ा सै, अर उसपै एक सवार सै, जो बिश्वास जोगा, अर सच्चा कुहावै सै, अर वो धर्म के साथ न्याय अर लड़ाई करै सै। (12) उसकी आँख आग की लपट की तरियां थीं, अर उसके सिर पै भोत-से मुकुट थे, अर उसके माथ्ये पै एक नाम लिखा था, जिस ताहीं उसनै छोड़ और कोए न्ही जाणै था। (13) अर उसनै लहू म्ह डबोया होइ बाणा पैहरे राख्या था, अर उसका नाम परमेशवर का वचन था।

जो उसपर बैठ्या था वो विश्वासयोग्य अर सच्चा कहलावै था --> उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलावै सै।

प्रकाशित वाक्य 19:16 अर उसके लत्ते अर जाँघ पै यो नाम लिखा था, राजयां का राजा अर प्रभुओं का प्रभु।

राजयां का राजा अर प्रभुओं का प्रभु.

(मेरे निजी विचार: प्रकाशितवाक्य 19:12 की एक छोटी सी लाइन पै ध्यान दियो। यीशु का एक नाम लिखा था जो कोए मानस न्ही जाणै था, बस वो ई अकेला वा नाम जाणै था। जो नाम इस अध्ययन नै दिए गए सै, वो इसी हिस्से म्ह मिलै सै। वे नाम सै विश्वासयोग्य अर सच्चा। परमेश्वर का वचन। राजाओं का राजा, अर प्रभुओं का प्रभु।)

L4. किताबां खोल्ली गई

प्रकाशित वाक्य 20:11 फेर मत्रै एक बड़ड़ा धोळा सिंहासन अर उसपै बेट्टे होए परमेशवर ताहीं देखा, जिसके स्याम्ही तै धरती अर अकास भाजगे, अर उसके बाद वे दिखाई न्ही दिए। (12) फेर मत्रै छोटे-बड़े सारे मरे होया ताहीं परमेशवर के सिंहासन के स्याम्ही खड़े होए देखा, अर किताबें खोल्ली गई, अर फेर एक और किताब खोल्ली गई, यानिके जीवन की किताब। मरे होया का न्याय उनके काम्मां के मुताबिक करया गया, जिनका बयान इन किताबां म्ह लिखा होइ था। (13) अर समुन्दर नै उन मरे होए माणसां ताहीं उगळ दिया, जो उस म्ह थे, अर मौत अर अधोलोक नै भी उन मरे होए माणसां ताहीं उगळ दिया, जो उस म्ह थे, अर हरेक का न्याय उनके काम्मां के मुताबिक करया गया। (14) मौत अर अधोलोक भी आग की झील म्ह गेरे गये, या आग की झील ए दुसरी मौत सै। (15) अर जिस किसे का नाम जीवन की किताब म्ह लिखा होया न्ही मिल्या, वो आग की झील म्ह गेर दिया गया।

किताबां खोली गई + अर एक और किताब खोली गई, जो जीवन की किताब सै --> जो कोए जीवन की किताब म्ह लिखा होया न्ही मिल्या, वो आग की झील म्ह गेर दिया गया।

(मेरे निजी विचार: प्रकाशितवाक्य 20:12 म्ह सिंहासन के आगे दो तरियां की किताबां दिखै। एक किताब म्ह लोगों के काम लिखे होते। दूसरी किताब म्ह नाम लिखे होते, जिसे जीवन की किताब कहया गया। प्रकाशितवाक्य 20:12 यह न्ही कहता के कोई काम की किताबां म्ह लिखी बात नै तार्या गया। प्रकाशितवाक्य 20:15 कहवै है के एक ही चीज नतीजा तय करती थी—के आदमी का नाम जीवन की किताब म्ह लिखा था के न्ही।)

L5. पसंद, जितणी साफ बात बाइबिल कदे भी कहवै सै

यूहन्ना 3:18 जो परमेशवर के बेट्टे पै बिश्वास करै सै, उसपै दण्ड का हुकम कोन्या होन्दा, पर जो उसपै बिश्वास न्ही करदा, वो कसूरवार बणैगा, ज्यातै के उसनै परमेशवर के इकलौते बेट्टे के नाम पै बिश्वास कोनी करया।

जो कोए विश्वास कोनी करदा, वो पैहले तै ए दोषी ठहरया होया सै।

यूहन्ना 3:36 जो बेट्टे पै बिश्वास करै सै, अनन्त जीवन उससे का सै, पर जो बेट्टे की बात कोनी मान्दा, उसनै वो अनन्त जीवन कोनी मिलै, इसकी बजाये उसपै परमेशवर का छो बण्या रहवैगा।

जो बेट्टे पै बिश्वास करै सै, अनन्त जीवन उससे का सै.

रोमियों 6:23 क्यूँके पाप का नतिज्जां तो मौत सै, पर परमेशवर का वरदान म्हारै प्रभु मसीह यीशु म्ह अनन्त जीवन सै।

क्यूँके पाप का नतिज्जां तो मौत सै --> पर परमेशवर का वरदान म्हारै प्रभु मसीह यीशु म्ह अनन्त जीवन सै.

(मेरे निजी विचार: रोमियों 6:23 इस पूरे अध्ययन का मुख्य पद सै। रोमियों 6:23 एक छोटा वाक्य सै जिसके दो हिस्से सै। पाप का एक भुगतान देणा पड़े सै, अर वो भुगतान मौत सै। वो भुगतान दो तरियां म्ह तै किसे एक तरियां तै दिया जा सके सै। या तो कोए मान्खा वो भुगतान खुद, सारी उमर खातर, चुकावै, या फेर कोए मान्खा वो लेवै जो यीशु नै पहलेए चुका दिया, एक भेंट के रूप म्ह। यो पूरा चुनाव इसे सै। कोए भी इस चुनाव नै करण तै न्ही बच सकदा, क्यूँके न चुनाव भी पैहल्या तरियां चुनण के बराबर सै। इस पूरे अध्ययन म्ह सारी बात, उत्पत्ति 1:26 के "आओ हम मान्छ नै बणावां" तै लेके प्रकाशितवाक्य 20 के सिंहासन ताहीं, इसी एक फैसले की ओड़ बढ़ै सै। इब भी वखत सै वो फैसला करण खातर। यीशु इब भी बुलावै सै।)

L6. प्रेरितों के काम 4:12 "यीशु के अलावा किसे दुसरे नाम म्ह उद्धार कोनी, क्यूँके सुर्ग के तळे माणसां म्ह और कोए दुसरा नाम कोनी दिया गया, सिर्फ यीशु के जरिये हम उद्धार पा सकां सां।"

यीशु के अलावा किसे दुसरे नाम म्ह उद्धार कोनी --> क्यूँके सुर्ग के तळे माणसां म्ह और कोए दुसरा नाम कोनी दिया गया, सिर्फ यीशु के जरिये हम उद्धार पा सकां सां.

समापन

प्रकाशित वाक्य 22:17 अर आत्मा, अर बन्दड़ी दोनु कहवै सै, “आ!” अर सुणण आळा भी कहवै, के “आ!” अर जो तिसाया हो, वो आवै अर जो कोए चाहवै वो जीवन का पाणी मुफ्त म्ह ले।

आत्मा अर दुल्हन कहवें सैं, आओ --> जो कोए चाहवै, वो जीवन का पाणी मुफ्त म्ह ले।

यूहन्ना 3:17 क्यूँके परमेशवर नै अपना बेड़ा दुनिया म्ह इस खात्तर न्ही भेज्या, के दुनिया पै दण्ड का हुकम देवै, पर इस खात्तर भेज्या के दुनिया उसके जरिये उद्धार पावै।

क्यूँके परमेशवर नै अपना बेड़ा दुनिया म्ह इस खात्तर न्ही भेज्या, के दुनिया पै दण्ड का हुकम देवै --> पर इस खात्तर भेज्या के दुनिया उसके जरिये उद्धार पावै।

(मेरे निजी विचार: बाइबल का आखरी न्योता किसे कीमत का न्ही सै। बाइबल का आखरी न्योता कोए भी नै दिया जावै सै। जो शब्द इस्तेमाल होया सै, वो सै “जो कोए भी”। शब्द “जो कोए भी” जानबूझके किसे नै भी बाहर कोनी छोड़दा। इस म्ह वो सबतै बुरा माणस भी आवै सै जो या अध्ययन पढ़ रहा सै। इस म्ह वो माणस भी आवै सै जो बरसां तै “नाँ” कहन्दा आया सै। यीशु, जो या सब कुछ सै, वोए सै जो कहवै सै आ जा। बंदे नै बस इतना ए करणा सै के आवै अर जीवन का पाणी ले ले।)

अभ्यास प्रश्नोत्तरी

- इब्रानी 9:22 — और नियम के मुताबिक करीबन सारी चीज़ां लहू सूं शुद्ध होवै हैं:**
 - क्यूँकि देह का जीवन लहू म्ह है
 - और लहू बहाए बिना कोई माफी नहीं होंदी
 - क्योंके लोहू ही है जो प्राण के खात्तर प्रायश्चित करै है
- रोमियों 5:8 — पर परमेश्वर हमारे पाप्मी होते हुए भी, हमारे पर अपना प्रेम इस बात में दिखावै है:**
 - हम उसके जरिये कोप तै बचाए जावांगे
 - हम उसके बेटे की मृत्यु के जरिये परमेश्वर के साथ मेल करा लिये गये
 - मसीह हमारे खात्तर मरा
- इब्रानियों 1:8 — पर पुत्र के बारे म्ह वो कहै है, हे परमेश्वर, तेरा राज्य-सिंहासन युगानुयुग स्थिर रहै:**
 - धार्मिकता का राजदण्ड, तेरे राज्य का राजदण्ड सै
 - थारे राज्य का राजदंड सीधा राजदंड सै
 - अर राज्य-भार उसके कंधे पै होगा
- भजन संहिता 110:1 — यहोवा नै मेरे प्रभु तै कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ:**
 - जिब ताहीं मै तेरे बैरियाँ नै तेरे पायां की चौकी न्ही बणा द्युँ
 - तू अपने दुश्मनां के बीच राज कर
 - जिब तक मै तेरे बैरियाँ नै तेरे पाँवां की चौकी न्ही बणादूँ
- 1 कुरिन्थियों 15:20 — पर अब मसीह मरे हुआं म्ह से जी उठ्या है:**
 - और सोये हुए लोगों का पहला फल बण गया
 - और यो कि वो शास्त्रां के मुताबिक तीसरे दिन फिर जी उठ्या
 - अर तू अपने पवित्र जन नै सड़न-गलण भी नहीं देखण देगा
- प्रकाशितवाक्य 1:7 — देखो, वो बादलां के साथ आवै है:**
 - और एक बादल नै उसनै उनकी नजरां तें ओहले कर लिया
 - और हर आंख उसे देखेगी
 - और सारे बिश्वास करणवाल्यां म्ह सराहा जाणे खात्तर
- 2 थिस्सलुनीकियों 1:9 — जिननै प्रभु की उपस्थिति तै अनन्त विनाश की सजा मिलेगी:**
 - अर उसकी शक्ति की महिमा तै
 - जो दूसरी मौत सै
 - अर उसकी महिमा की शान खात्तर

जवाब की कुंजी: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-a, 6-b, 7-a

यो अध्ययन कस्यां शाखावां मं बंटता सै

शब्दां का मतणा भोत मायने राखै सै: अंग्रेजी का एक शब्द "LORD" भजन 110:1 म्ह दो अलग-अलग इब्रानी शब्दां नै दर्शावै सै। वे दो इब्रानी शब्द सै यहोवा (H3068) अर अदोन (H113)। मत्ती 22:45 म्ह यीशु का पूरा तर्क इसी फर्क पै टिका सै।

--> यो थारे पै किस तरियां लागू होवै सै: यीशु सिर्फ वोए कोनी जो आया। यीशु सिर्फ वोए कोनी जो आण आळा सै। यीशु वो सै जो इब थारे म्ह रहणा चाहवै सै (कुलुस्सियों 1:27, गलातियों 2:20)।

अनन्तकाल कै खात्तर इसका के मतलब सै: पाप की मजदूरी मौत सै। परमेश्वर का दान म्हारे प्रभु यीशु मसीह कै जरिये अनन्त जीवन सै (रोमियों 6:23)। ये दोए ए राह सैं जिनतै कोए भी माणस पाप का कर्जा चुका सकै सै।

साइड की बात: भजन 110:4 अर इब्रानियों की किताब का 7वां अध्याय मलिकिसिदक की याजकीय पदवी के पूरे सिद्धांत नै खोल्लै सै। यो सिद्धांत एक इसे राजा अर याजक नै बतावै सै जो एके ए माणस म्ह मिले सै, जो व्यवस्था तै भी पुराणा सै, अर परमेश्वर की उस कसम तै बंध्या सै जिसनै वो कदे वापस न्ही लेवेगा। यो सिद्धांत अपने आप म्ह एक पूरे अध्ययन का हकदार सै।

--> रेबिट ट्रेल: 2 थिस्सलुनीकियों 1:7-10 अर प्रकाशितवाक्य 19:11-16 यीशु के फेर आण की सारी शिक्षा नै खोल्लै सैं। इस शिक्षा म्ह यीशु के फेर आण की निश्चितता, यीशु के फेर आण की अचानकता, अर यीशु के फेर आण नै देखते रहण का हुकम शामिल सै। साफ-साफ बताओ: पवित्रशास्त्र यीशु के फेर आण की निश्चितता बतावै सै अर यीशु के फेर आण का समय बताण तै मना करै सै (मत्ती 24:36, प्रेरितों के काम 1:7)। यो सेवकाई भी यीशु के फेर आण का समय बताण तै मना करै सै।

एक खुल्लू न्योता — तू चाहे कोए भी हो, पढ़दा रहै

इस अध्ययन नै पढ़ण खात्तर थारा ईसाई होणा जरूरी कोनी। कई बात थमनै इब्बे ले आई होंगी। कोए खोज थमनै इब्बे ले आई सै। कोए बहस थमनै इब्बे ले आई सै। कोए सवाल जो थम बरसां ले मन म्ह राख रह्या था, वो थमनै इब्बे ले आया सै। किसे और की श्रद्धा के बारे म्ह जिज्ञासा भी थमनै इब्बे ले आई सकै सै। इस वेबसाइट पै जो कुछ भी सै, वो सब थारा सै, बिना किसे कीमत के, थारी अपनी भाषा म्ह। हम कदे थारा नाम कोनी पूछां। हम कदे थारा देश कोनी पूछां। हम कदे कोनी पूछां के थम के मानो सो। एक अध्ययन यीशु नै पूरा-पूरा बता कोनी सकै। हमनै इस सवाल म्ह अपनी सारी ताकत लगा दी, फेर भी यो अध्ययन बाइबल का सिर्फ एक रस्ता ए तय कर पाया। यीशु शुरुआत तै पैहले भी था। यीशु इब्बे भी सै। यीशु फेर तै आवेगा। कोए एक पत्रा इतणा सारा बताण नै पूरा कोनी कर सकै। और अध्ययन याहीं इंतजार म्ह पड़े सै। दया पै अध्ययन याहीं इंतजार म्ह सै। बुद्धि पै अध्ययन याहीं इंतजार म्ह सै। ज्ञान पै अध्ययन याहीं इंतजार म्ह सै। धीरज पै अध्ययन याहीं इंतजार म्ह सै। भक्ति पै अध्ययन याहीं इंतजार म्ह सै। और अध्ययन आण आळे सै। इन अध्ययनां नै जिस क्रम म्ह चाहवो, पढ़ो। जिसा-जिसा आगे बढ़ो, म्हारे स्रोत भी जाँच लियो। इन अध्ययनां का हरेक पद जानबूझके पूरा छाया गया सै। थमनै म्हारी बात पै भरोसा करण की कोए जरूरत कोनी। थम हरेक पद नै खुद तोल सको सो।

इसके बाद एक और न्योता आवै सै। हम न्यू न्ही मानागें के वा न्योता लुक्या होया सै। वा न्योता उस अध्ययन का सै जो बतावै सै के माणस नै बचण खात्तर के करणा चाहिए। जै थम इब्बे पढ़णा चाहो तो इब्बे पढ़ लियो। जै थम पैहल्या कुछ और पढ़णा चाहो तो पैहल्या कुछ और पढ़ लियो। कोए गिणती न्ही कर रह्या। दोनू सूरत म्ह दरवाज्जा खुल्ला रहवै सै। पौलुस नै ये शब्द उस नगर म्ह बोल्ले जो उसके अपने परमेश्वर तै अलग देवतयां की वेदियां तै भरया होया था। पौलुस नै ये शब्द उन लोगों नै बोल्ले जिन्ने पौलुस नै उस नगर म्ह आण खात्तर कोनी बुलाया था:

प्रेरितों के काम 17:26 उसनै एक ए मूल तै माणसां की सारी जात सारी धरती पै रहण के खात्तर बणाई सै, अर उनके ठहराए होइ बखत अर रहण या निवास की हदां ताहीं ज्यांतै बाँधया सै, (27) के वे परमेश्वर नै टोहवै, कदाचित उस ताहीं टटोळकै पावै, फेरभी वो म्हारै म्ह तै किसे तै दूर कोनी।

उसनै एक लोही तै मानवजात की सारी जातियां बणाई --> ताके वे परमेश्वर नै टोहवैं अर पावैं + वो म्हारै म्ह तै किसे तै भी दूर कोन्या।

यूनानी मुख्य शब्द

“मिलाप कराया गया” — **G2644 katallasso** — दुश्मणी तै दोस्ती म्ह बदळणा; कृपा म्ह वापस ल्यावणा
कैटलैसो एके शब्द म्ह क्रूस का सारा कारण बता दे सै।

“मेल-मिलाप” — **G2643 katallage** — अनुग्रह की बहाली; न्यारे होए दो पक्षां का फेर तै एक होणा
काटालागे वोए मूल तै आवै सै जिसतै ऊपर वाळा काटालासो आवै सै। काटालासो मेल-मिलाप करण की क्रिया नै दर्शावै सै (दो अलग होए जणां के बीच दोस्ती नै फेर तै जोड़णा)। काटालागे उस मेल-मिलाप के परिणाम नै दर्शावै सै।

“माफी” — **G859 aphesis** — भेज देणा; छुटकारा; छोड़ देणा; माफी
लहू बहाए बिना पाप का माफ होणा कोन्या।

“रहस्य” — **G3466 musterion** — एक भेद; कोए बात जो पैहले छिपी थी अर इब्ब बतादी गई
बाइबल म्ह, कोए रहस्य कदे सुलझाण आळी पहेली न्ही होंदा। बाइबल म्ह रहस्य वो भेद सै जिसनै परमेश्वर नै बताण का फैसला करया।

“बदला” — **G1557 ekdikesis** — वो चीज जो न्याय तै लिकड़ै सै; गलत का पूरा सुधार
एकडिकेसिस शब्द 2 थिस्सलुनीकियों 1:8 म्ह प्रयोग होया है। एकडिकेसिस का मतलब बेकाबू गुस्सा नाहीं होता। एकडिकेसिस का मतलब है न्याय नै पूरी तरह से करणा।

“पहलौठा” — **G4416 prototokos** — पहलौठा; पहलूदे जन्मया होया
पिता बेटे के बारे म्ह कहै है “परमेश्वर के सारे दूत उसकी अराधना करै”।

HEBREW KEYWORDS ke ibrani shabd

“यहोवा” — **H3068 Yehovah** — परमेश्वर का वाचा वाळा नाम, जो KJV म्ह बड़े अक्षरां म्ह यहोवा लिख्या सै
पुराणे नियम म्ह जित्त भी LORD बड़े अक्षरां म्ह आवै सै, वहां अंग्रेजी शब्द LORD कै पाच्छै हिब्रू नाम यहोवा होवै सै।

“प्रभु” — **H113 adown** — प्रभु; मालिक; स्वामी; राज करण आळा
भजन संहिता 110:1 म्ह, अदोन का रूप “मेरा प्रभु” पढ्या जावै सै। अदोन यहोवा तै एक अलग इब्रानी शब्द सै, वोए यहोवा जो उस पद म्ह दाऊद के प्रभु तै बोल रहा सै।

SOURCES & CREDITS

Scripture: Haryanvi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).